

אָו נקבה मादा या H5347	זָכָר नर H2145	לִיהוּוָה यहोवा-को H3068	שְׁלָמִים मेलबलियों H8002	לְיָבֹחַ बलिदान-के-लिए H2077	קָרְבָּנוֹ भेंट-उसकी H6629	הַזָּאֵן भेड़-बकरियों H6629	מִן- में-से	וְאִם- और-यदि	6
------------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	---

תָּמִים יִקְרִיבוּ
निर्दोष चढ़ाए-उसे
H7126 H8549

“यदि व्यक्ति यहोवा के लिए अपनी रेवड़ में से मेलबलि के रूप में पशु को लाता है, तब उसे एक नर या मादा पशु भेंट में देना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो।

יְהוָה: यहोवा-के H3068	לְפָנָי सामने H6440	אֵתוֹ उसे H0853	וְהִקְרִיב और-चढ़ाए H7126	קָרְבָּנוֹ भेंट-अपनी H0853	אֶת- को H0853	מִקְרִיב चढ़ाता H7126	הוּא- वह H1931	כְּשֶׁב मेमना H3775	אִם- यदि	7
------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	---

यदि वह भेंट में एक मेमना लाता है तो उसे यहोवा के सामने लाना चाहिए।

מוֹעֵד मिलाप-के H4150	אֶהָל तम्बू H0168	לְפָנָי सामने H6440	אֵתוֹ उसे H0853	וּשְׁחַט और-वध-करे H0853	קָרְבָּנוֹ भेंट-उसकी H0853	רֹאשׁ सिर H0853	עַל- पर H3027	יָדוֹ हाथ-अपना H3027	אֶת- को H0853	וְסָמָךְ और-रखे H5564	8
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	---

סְבִיב :
चारों-ओर
H5439

הַמִּזְבֵּחַ
वेदी
H4196

עַל-
पर
H1818

הָמֶוֶן
लहू-उसका
H1818

אֶת-
को
H0853

אֶהָרֹן
हारून-के
H0175

בְּנֵי
पुत्र

וְיָרְקוּ
और-छिड़कें
H2236

उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखाना चाहिए हारून के पुत्र वेदी पर चारों ओर पशु का खून जालेंगे।

הַעֲצָה रीढ़-की-हड्डी H6096	לְעִמָּת पास H5980	תְּמִימָה पूरी H8549	הָאֵלֶּיךָ मोटी-पूँछ H0451	חֻלְבֹּנוֹ चर्बी-उसकी H2459	לִיהוּוָה यहोवा-को H3068	אֲשֶׁה अग्निबलि H0801	הַשְּׁלָמִים मेलबलियों-के H8002	מִזְבֵּחַ बलिदान-से H2077	וְהִקְרִיב और-चढ़ाए H7126	9
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

הַקָּרֵב: अंतड़ियों H7130	עַל- पर	אֲשֶׁר जो	הַחֻלְבֵּי चर्बी H2459	כָּל- सब H3605	וְאֵת और-को H0853	הַקָּרֵב अंतड़ियां H7130	אֶת- को H0853	הַמְּכֻסָּה ढकने-वाली H3680	הַחֻלְבֵּי चर्बी H2459	וְאֵת- और-को H0853	יְסִירֶנָּה निकाले-उसे H5493
---------------------------------	------------	--------------	------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------------

तब वह व्यक्ति मेलबलि का एक भाग यहोवा को आग द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाएगा। इस व्यक्ति को चर्बी और चर्बी से भरी सम्पूर्ण पूँछ और पशु के भीतरी भागों के ऊपर और चारों ओर की चर्बी लानी चाहिए। (उसे उस पूँछ को रीढ़ की हड्डी के एकदम पास से काटना चाहिए।)

הִיָּתָרֵת लपेट H3508	וְאֵת- और-को H0853	הַכְּסָלִים कमरों H3689	עַל- पर	אֲשֶׁר जो	עֲלֵהֶן उन-पर	אֲשֶׁר जो	הַחֻלְבֵּי चर्बी H2459	וְאֵת- और-को H0853	הַכְּלִיֹּת गुर्दों H3629	שְׁתֵּי दो H8147	וְאֵת- और-को H0853	10
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------	--------------	------------------	--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------	----

עַל-
पर
H3516

הַכְּבָד
कलेजा
H3516

עַל-
पर

הַכְּלִיֹּת
गुर्दों
H3629

יְסִירֶנָּה:
निकाले-उसे
H5493

इस व्यक्ति को दोनों गुर्दों और उन्हें ढकने वाली चर्बी और पुट्टे की चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे गुर्दों के साथ कलेजे को भी निकाल लेना चाहिए।

פ	לִיהוּוָה: यहोवा-को H3068	אֲשֶׁה अग्निबलि H0801	לֶחֶם रोटी H3899	הַמִּזְבֵּחַ वेदी-पर H4196	הַכֹּהֵן याजक H3548	וְהִקְטִירוֹ और-जलाए-उसे	11
---	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----

तब याजक वेदी पर इस को जलाएगा। यह यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट होगी तथा यह लोगों के लिए भी भोजन होगी।

יְהוָה: यहोवा-के H3068	לְפָנָי सामने H6440	וְהִקְרִיבוּ और-चढ़ाए-उसे H7126	קָרְבָּנוֹ भेंट-उसकी	עוֹ बकरी	וְאִם- और-यदि	12
------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------	------------------	----

“यदि किसी व्यक्ति की भेंट एक बकरा है तो वह उसे यहोवा के सामने भेंट करे।

13 וְרָקוּ וּמָרָא אֶת-יָדוֹ עַל-רֹאשׁוֹ וְשָׂתָ וְאָתוּ לְפָנָי אֶת-מוֹעֵד מוֹעֵד וְרָקוּ
 और-छिड़कें और-रखे को हाथ-अपना पर सिर-उसके और-वध-करे उसे सामने तम्बू मिलाप-के और-छिड़कें
[H2236](#) [H4150](#) [H0168](#) [H6440](#) [H0853](#) [H3027](#) [H0853](#) [H5564](#)

בְּנֵי אֶהָרֹן אֶת-רָמֹו עַל-הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב:
 हारून-के पुत्र को लहू-उसका पर वेदी चारों-ओर
[H5439](#) [H4196](#) [H1818](#) [H0853](#) [H0175](#)

इस व्यक्ति को बकरे के सिर पर हाथ रखना चाहिए। तब हारून के पुत्र बकरे का खून वेदी पर चारों ओर जालेंगे।

14 וְהִקְרִיב וּמִמֶּנּוּ קָרְבָּנוֹ אֵשֶׁה לַיהוָה אֶת-חֶחֱלָב וְהַמִּכְסָּה אֶת-הַקֶּרֶב וְאֶת-אֲתָר
 और-चढ़ाए उस-में-से भेंट-उसकी अग्निबलि को यहीवा-को चर्बी चर्बी को अंतड़ियां और-को
[H0853](#) [H7130](#) [H0853](#) [H3680](#) [H2459](#) [H0853](#) [H3068](#) [H0801](#) [H7126](#)

כָּל-הַחֶחֱלָב אֲשֶׁר עַל-הַקֶּרֶב:
 सब चर्बी जो पर अंतड़ियों
[H7130](#) [H2459](#) [H3605](#)

तब व्यक्ति को बकरे का एक भाग यहीवा को अग्नि द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाने के लिए लाना चाहिए। इस व्यक्ति को भीतरी भाग के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी की भेंट चढ़ानी चाहिए।

15 וְאֶת-שְׁתֵּי הַכֹּלִיֹּת וְאֶת-הַקֶּלֶב אֲשֶׁר עַל-הַכֹּסְלִים וְאֶת-הַיִּתְּרוֹת
 और-को दो गुर्दों और-को चर्बी जो उन-पर जो पर कमरों और-को लपेट
[H3508](#) [H0853](#) [H3689](#) [H2459](#) [H0853](#) [H3629](#) [H8147](#) [H0853](#)

עַל-הַכֶּבֶד יִסְרְוּהָ:
 पर कलेजा पर निकाले-उसे गुर्दों
[H5493](#) [H3629](#) [H3516](#)

उशे दोनों गुर्दे उसे ढकने वाली चर्बी तथा पशु के पुट्टे की चर्बी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे को ढकलने वाली चर्बी चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे के साथ गुर्दे को निकाल लेना चाहिए।

16 וְהִקְטִירָם וְהִקְהֵן הַמִּזְבֵּחַ לְחֶם לֶחֶם אֲשֶׁה לְהִיחַ נִיחֹחַ כָּל-הַלֶּבֶת לַיהוָה:
 और-जलाए-उन्हें याजक वेदी-पर रौंदी रौंदी अग्निबलि सुगंध-के-लिए सुखदायक सब चर्बी यहीवा-को
[H3068](#) [H2459](#) [H3605](#) [H5207](#) [H7381](#) [H0801](#) [H3899](#) [H4196](#) [H3548](#)

याजक को वेदी पर बकरे के भागों को जलाना चाहिए। यह यहीवा को आग द्वारा दी गई भेंट तथा याजक का भोजन होगा। इसकी सुगन्ध यहीवा को प्रसन्न करती है। (लेकिन सारा उत्तम भाग यहीवा का है।)

17 חֲקַת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבֵיכֶם כָּל-חֶלֶב וְכֹל-רֹם לֹא תֹאכְלוּ:
 सदा विधि पीढ़ियों-तुम्हारी-के-लिए सब-में सब निवासों-तुम्हारे और-सब लहू नहीं खाओ
[H0398](#) [H3808](#) [H1818](#) [H3605](#) [H2459](#) [H3605](#) [H4186](#) [H3605](#) [H1755](#) [H5769](#) [H2708](#)

ב
 —

यह नियम तुम्हारी सभी पीढ़ियों में सदा चलता रहेगा। तुम जहाँ कहीं भी रहो, तुम्हें खून या चर्बी नहीं खानी चाहिए।”